



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 10 दिसम्बर, 2020

अग्रहायण 19, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

नगर विकास अनुभाग-1

संख्या 2346/9-1-2020-46 टी0ए0-20

लखनऊ, 10 दिसम्बर, 2020

अधिसूचना

प0आ0-399

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) की धारा 3 की उपधारा (2) साथ पठित भारत का संविधान के अनुच्छेद 243-थ के खण्ड (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और अधिसूचना संख्या 112-टी/9-क-29-टी(5)-67, दिनांक 23 अक्टूबर, 1971 और इस निमित्त जारी की गयी अन्य पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं का आंशिक उपान्तर करके राज्यपाल, नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को नगर पंचायत मटौंध, जिला बाँदा के संक्रमणशील क्षेत्रों में सम्मिलित करने के लिये जिस अधिसूचना को जारी करने के लिए प्रस्ताव करती हैं, उसका निम्नलिखित प्रारूप, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार समस्त सम्बन्धित की सूचना के लिए और उसके संबंध में आपत्तियाँ और सुझाव आमन्त्रित करने की दृष्टि से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

2. प्रस्तावित अधिसूचना के संबंध में, आपत्तियाँ और सुझाव, यदि कोई हों, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, नगर विकास अनुभाग-1, बापू भवन, लखनऊ को सम्बोधित करके लिखित रूप में भेजे जाने चाहिए। केवल उन्हीं आपत्तियों और सुझावों पर विचार किया जायेगा जो इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर प्राप्त होंगे।

अधिसूचना का प्रारूप

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) की धारा 3 की उपधारा (2) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 243-थ के खण्ड (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और अधिसूचना संख्या 112-टी/9-क-29-टी(5)-67, दिनांक 23 अक्टूबर 1971 और इस निमित्त जारी अन्य पूर्ववर्ती

अधिसूचनाओं का आंशिक उपान्तर करके राज्यपाल संविधान के भाग नौ-'क' के प्रयोजनार्थ नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को नगर पंचायत मटौध, जिला बाँदा के संक्रमणशील क्षेत्रों में सम्मिलित करती हैं।

अनुसूची

नगर पंचायत मटौध, जिला बाँदा के संक्रमणशील क्षेत्र में सम्मिलित किया जाने वाला क्षेत्र :-

क्र० सं०	ग्रामों का नाम	दिशा	गाटों का विवरण
1	2	3	4
	मटौध ग्रामीण	उत्तर	335, 336, 337, 343, 344, 345, 346, 347, 347/8385, 348, 349, 350, 351, 351/8282, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 362, 364, 365, 366, 367, 697, 698क, 699, 700, 701क, 702क, 703क, 704क, 705, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 735/8404, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 746, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 763, 764, 765, 765/8477, 765/8301, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 828, 829, 830, 830/8512, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 1629 क, 1643
		दक्षिण	1307, 1308, 1309, 1311, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1395/8436, 1396, 1396/8502, 1397, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1419/8393 1420, 1421, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1433, 1434, 1435, 1436क, 1436ग, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1449/8333, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1461, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1472, 1473, 1475, 1476, 1477, 1478, 1707, 1708, 1709, 1713, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1756, 1757, 1804, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1828, 1829, 1830, 1830/8434, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1842, 1854, 1856, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873
		पूर्व	1667, 1670ख, 1670ग, 1671, 1671/8429, 1671/8430, 1672, 1673, 1674, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1694, 1695, 1696, 1696/8527, 1697, 1698, 1698/8427, 1699 ख, 1700, 1919, 1920, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1927/8636, 1928, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1934/8447, 1935, 1936, 1941, 1942, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2011/8511, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2017/8547, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
		पश्चिम	1189, 1190, 1191, 1192, 1192/8363, 1193, 1194, 1196, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1202/8354, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1215/8671, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1244/8399, 1244/8426,

क्र० सं०	ग्रामों का नाम	दिशा	गाटों का विवरण
1	2	3	4
			1244/8401, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1422, 1423, 1458, 1459, 1460, 1462, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1505/8497, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1521, 1522, 1523, 1524, 1526, 1527क, 1531 क, 1532 क & ख, 1536, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1578, 1579 क & ग, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586 ख, 1587 1588, 1589, 1597 क & घ, 1600/8338, 1601, 1602, 1605क, 1609क & ख, 1616, 1625, 1626, 1629 क

आज्ञा से,
दीपक कुमार,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 2346/IX-1-2020-46 T.A.-20, dated December 10, 2020 :

No. 2346/IX-1-2020-46 T.A.-20

Dated Lucknow, December 10, 2020

The following draft notification which the Governor proposes to issue in exercise of the powers under clause (2) of Article 243-Q of the Constitution of India *read* with sub-section (2) of section 3 of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 (U.P. Act no. 2 of 1916) and in partial modification of notification no. 112-T/IX-A-29-T(5)-67, dated October 23, 1971 and other previous notifications issued in this behalf including the areas specified in the Schedule below in the transitional area of Nagar Panchayat Mataundh in district Banda, is hereby published for the information of all concerned and with a view to inviting objections and suggestions in respect thereof as required under sub-section (1) of section 4 of the said Act.

2. Objections or suggestions, if any, with respect to the proposed notification should be sent in writing addressed to the Pramukh Sachiv, Uttar Pradesh Shasan, Nagar Vikas Anubhag-1, Bapu Bhawan, Lucknow. Only such objections and suggestions shall be taken into consideration as are received within fifteen days from the date of publication of this notification in the *Gazette*.

DRAFT NOTIFICATION

In exercise of the powers under clause (2) of Article 243-Q of the Constitution of India *read* with sub-section (2) of section 3 of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 (U.P. Act no-II of 1916), and in partial modification of notification no. 112-T/IX-A-29-T(5)/67, dated October 23, 1971 and other previous notifications issued in this behalf the Governor is pleased to include the areas specified in the Schedule below in the transitional area of Nagar Panchayat Mataundh in district Banda for the purposes of part IX-A of the Constitution.

SCHEDULE

Area being included in the transitional area of Nagar Panchayat Mataundh in district

Banda :-

Sl. No.	Name of Villages	Direction	Detail of Gatas
1	2	3	4
1	Mataundh Rural	North	335, 336, 337, 343, 344, 345, 346, 347, 347/8385, 348, 349, 350, 351, 351/8282, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 362, 364, 365, 366, 367, 697, 698क, 699, 700, 701क, 702क, 703क, 704क, 705, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 735/8404
			736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 746, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 763, 764, 765, 765/8477, 765/8301, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 828, 829, 830, 830/8512, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 1629 क, 1643
		South	1307, 1308, 1309, 1311, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1395/8436, 1396, 1396/8502, 1397, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1419/8393 1420, 1421, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1433, 1434, 1435, 1436क, 1436ग, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1449/8333, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1461, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1472, 1473, 1475, 1476, 1477, 1478, 1707, 1708, 1709, 1713, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1756, 1757, 1804, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1828, 1829, 1830, 1830/8434, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1842, 1854, 1856, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873
		East	1667, 1670ख, 1670ग, 1671, 1671/8429, 1671/8430, 1672, 1673, 1674, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1694, 1695, 1696, 1696/8527, 1697, 1698, 1698/8427, 1699 ख, 1700, 1919, 1920, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1927/8636, 1928, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1934/8447, 1935, 1936, 1941, 1942, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2011/8511, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2017/8547, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024

Sl. No.	Name of Villages	Direction	Detail of Gatas
1	2	3	4
		West	1189, 1190, 1191, 1192, 1192/8363, 1193, 1194, 1196, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1202/8354, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1215/8671, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241
			1242, 1243, 1244, 1244/8399, 1244/8426, 1244/8401, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1422, 1423, 1458, 1459, 1460, 1462, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1505/8497, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1521, 1522, 1523, 1524, 1526, 1527क, 1531 क, 1532 क & ख, 1536, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1578, 1579 क & ग, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586 ख, 1587 1588, 1589, 1597 क & घ, 1600/8338, 1601, 1602, 1605क, 1609क & ख, 1616, 1625, 1626, 1629 क

By order,
DEEPAK KUMAR,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 480 राजपत्र-2020-(1022)-599+50=649 प्रतियाँ (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।